



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257940  
CG-DL-E-16102024-257940

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4124]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 14, 2024/ आश्विन 22, 1946

No. 4124]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASVINA 22, 1946

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2024

का. आ.4487(अ).— केंद्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4295(अ), तारीख 03 अक्टूबर, 2023 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 03 अक्टूबर, 2023 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 2133.25 एकड़ (लगभग) या 863.29 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि में और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 2133.25 एकड़ (लगभग) या 863.29 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि, उक्त अनुसूची में यथा वर्णित 2133.25 एकड़ (लगभग) या 863.29 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्यांक आरईवी/01/2024, तारीख 20 जुलाई, 2024 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला राँची, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, उत्तरी करनपुरा क्षेत्र, जिला राँची, झारखण्ड के कार्यालय में या महाप्रबंधक, भूमि और राजस्व, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची 834001, झारखण्ड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची 834031, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

रोहिणी करकट्टा 10 एमटीवाई ओसीपी

जिला राँची, झारखण्ड

[रेखांक धारक संख्या: आरईवी/01/2024, तारीख 20 जुलाई, 2024]

सभी अधिकार:

ब्लॉक	क्र. सं.	ग्राम	थाना सं.	अंचल	जिला	अर्जन की भूमि का रकबा		टिप्पणी
						एकड़ में	हेक्टेयर में	
ए	1	नावाडीह	4	खलारी	राँची	798.74	323.24	भाग
	2	तुमांग	5	खलारी	राँची	1108.71	448.68	भाग
	3	करकट्टा	6	खलारी	राँची	166.61	67.42	भाग
	4	मायापुर	7	खलारी	राँची	38.79	15.70	भाग
	5	हेसालौंग	2	खलारी	राँची	01.07	0.43	भाग
	कुल रकबा (ब्लॉक - ए)					2113.92	855.47	
बी	1	हेसालौंग	2	खलारी	राँची	16.17	6.54	भाग
	2	नावाडीह	4	खलारी	राँची	3.09	1.25	भाग
	कुल रकबा (ब्लॉक - बी)					19.26	7.79	
सी	1	नावाडीह	4	खलारी	राँची	0.07	0.03	भाग
	कुल रकबा (ब्लॉक - सी)					0.07	0.03	
अर्जन की भूमि का कुल रकबा (ए + बी + सी)						2133.25 एकड़ (लगभग)	863.29 हेक्टेयर (लगभग)	

रोहिणी करकट्टा 10 एमटीवाई ओसीपी के लिए अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों का ब्यौरा: -

ब्लॉक ए:

- ग्राम - नावाडीह: प्लॉट संख्या- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(भाग), 17(भाग), 18(भाग), 19, 20, 21, 22, 23(भाग), 24, 25, 26, 27(भाग), 28(भाग), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89,

90(भाग), 91(भाग), 92, 93, 94, 116(भाग), 117(भाग), 118(भाग), 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139(भाग), 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157(भाग), 158(भाग), 159(भाग), 160(भाग), 207(भाग), 223(भाग), 224(भाग), 225(भाग), 226(भाग), 231(भाग), 232(भाग), 236(भाग), 326(भाग), 327(भाग), 328, 329, 355(भाग), 374(भाग), 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384(भाग), 385(भाग), 386(भाग), 387(भाग), 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400(भाग), 401(भाग), 420(भाग), 422(भाग), 423, 424, 425, 426(भाग), 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472(भाग), 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500(भाग), 501(भाग), 502(भाग), 541(भाग), 542, 543, 544, 545(भाग), 546(भाग), 547(भाग), 548(भाग), 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561(भाग), 563(भाग), 602(भाग), 603, 612(भाग), 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622(भाग), 623(भाग), 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642(भाग), 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682(भाग), 684(भाग), 690(भाग), 691(भाग), 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731(भाग), 732(भाग), 733(भाग), 734, 735, 736, 737, 738(भाग), 739(भाग), 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858(भाग), 859, 860, 861, 862, 863(भाग), 864, 865, 866, 867, 116/883, 116/884(भाग), 116/885(भाग), 497/875, 541/873, 541/874, 9/877, 9/878(भाग), 9/881 और 91/886.

2. ग्राम तुमांग: प्लॉट संख्या- 17(भाग), 34(भाग), 35(भाग), 48(भाग), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261(भाग), 262, 263(भाग), 404(भाग), 409(भाग), 410, 411(भाग), 412(भाग), 413, , 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,

456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466(भाग), 467(भाग), 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, , 498, 499, 500, 501(भाग), 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 123/564, 123/565, 180/549, 224/550, 34/558(भाग), 35/560, 454/551, 463/566, 464/570, 467/553(भाग), 48/561(भाग), 48/563, 525/567, 525/568 और 525/569.

3. ग्राम करकट्टा: प्लॉट संख्या- 1(भाग), 141(भाग), 143(भाग), 153(भाग), 154, 155, 156, 157(भाग), 189(भाग), 190(भाग), 191, 192(भाग), 193(भाग), 194(भाग), 195(भाग), 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204(भाग), 248(भाग), 249(भाग), 250(भाग), 251(भाग), 257(भाग), 258(भाग), 259(भाग), 323(भाग), 325(भाग), 326(भाग), 327(भाग), और 328(भाग).
4. ग्राम मायापुर: प्लॉट संख्या- 627(भाग), 628(भाग), 634(भाग), 696(भाग), 697(भाग), 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 709, 710, 712, 713, 714(भाग), 723(भाग), 724(भाग), 725(भाग), 727(भाग), 728(भाग), 729(भाग), 730(भाग), और 732(भाग).
5. ग्राम हेसालौंग: प्लॉट संख्या- 427(भाग), और 550(भाग)

ब्लॉक बी:

1. ग्राम हेसालौंग: प्लॉट संख्या- 545(भाग), 546(भाग), 547, 548(भाग), 549(भाग), 550(भाग), 553 (भाग), और 554(भाग).
2. ग्राम नावाडीह: प्लॉट संख्या- 200(भाग), 201(भाग), 202(भाग), 204 और 205.

ब्लॉक सी:

1. ग्राम नावाडीह: प्लॉट संख्या- 207(भाग).

सीमा विवरण:

ब्लॉक	सीमा रेखा	सीमा विवरण
ए	ए1-ए2-ए3-ए4-ए5-ए6-ए7-ए8-ए9-ए10-ए11-ए12-ए13-ए14-ए15-ए16-ए17-ए18-ए19-ए20-ए21-ए22-ए23-ए24-ए25-ए26-ए27-ए28-ए29-ए30-ए31-ए32-ए33-ए34-ए35-ए36-ए37-ए38-ए39-ए40-ए41-ए42-ए43-ए44-ए45-ए46-ए47-ए48-ए49-ए50-ए51-ए52-ए53-ए54-ए55-ए56-ए57-ए58-ए59-ए60-ए61-ए62-ए63-ए64-ए65-ए66-ए67-ए68-ए69-ए70-ए71-ए72-ए73-ए74-ए75-ए76-ए77-ए78-ए79-ए80-ए81-ए82-ए83-ए84-ए85-ए86-ए87-ए88-ए89-ए90-ए91-ए92-ए93-ए94-ए95-ए96-ए97-ए98-ए99-ए100-ए101-ए102-ए103-ए1	रेखा बिंदु 'ए1' से आरंभ होकर ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए7, ए8, ए9, ए10, ए11, ए12, ए13, ए14, ए15, ए16, ए17, ए18, ए19, ए20, ए21, ए22, ए23, ए24, ए25, ए26, ए27, ए28, ए29, ए30, ए31, ए32, ए33, ए34, ए35, ए36, ए37, ए38, ए39, ए40, ए41, ए42, ए43, ए44, ए45, ए46, ए47, ए48, ए49, ए50, ए51, ए52, ए53, ए54, ए55, ए56, ए57, ए58, ए59, ए60, ए61, ए62, ए63, ए64, ए65, ए66, ए67, ए68, ए69, ए70, ए71, ए72, ए73, ए74, ए75, ए76, ए77, ए78, ए79, ए80, ए81, ए82, ए83, ए84, ए85, ए86, ए87, ए88, ए89, ए90, ए91, ए92, ए93, ए94, ए95, ए96, ए97, ए98, ए99, ए100, ए101, ए102 और ए103 से गुजरते हुए आरंभिक बिंदु 'ए1' पर मिलती है
बी	ए67-बी1-बी2-बी3-बी4-बी5-बी6-बी7-बी8-बी9-बी10-बी11-बी12-ए67	रेखा बिंदु 'ए67' से आरंभ होकर बिंदु बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, बी7, बी8, बी9, बी10, बी11, और बी12 से गुजरते हुए आरंभिक बिंदु 'ए67' पर मिलती है

		है
सी	बी11-सी1-सी2-बी11	रेखा बिंदु 'बी11' से आरंभ होकर बिंदु सी1 और सी2 से गुजरते हुए आरंभिक बिंदु 'बी11' पर मिलती है

[फा. संख्या 43015/10/2022-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14<sup>th</sup> October, 2024.

**S.O. 4487(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 4295(E), dated the 3<sup>rd</sup> October'2023, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 3<sup>rd</sup> October, 2023, the Central Government gave notice of its intention to acquire the land measuring 2133.25 acres (approximately) or 863.29 hectares (approximately) and all rights in or over such land described in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Jharkhand, is satisfied that the land measuring 2133.25 acres (approximately) or 863.29 hectares (approximately) and all rights in or over such land as described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in or over the land measuring 2133.25 acres (approximately) or 863.29 hectares (approximately) as described in the said Schedule are hereby acquired;

The plan bearing number REV/01/2024, dated the 20<sup>th</sup> July, 2024, comprising the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District Ranchi, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, Coal Controller's Organisation, Ministry of Coal, Scope Minar, 5<sup>th</sup> Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or in the Office of the General Manager, North Karanpura Area, District Ranchi, Jharkhand or General Manager, Land and Revenue, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi 834001, Jharkhand or General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi 834031, Jharkhand.

**SCHEDULE**  
**ROHINI KARKATTA 10 MTY OCP**  
**DISTRICT RANCHI, JHARKHAND**

[Plan bearing number: REV/01/2024, dated the 20<sup>th</sup> July, 2024]

All Rights:

Block	Sl. No.	Village	Thana No.	Circle	District	Area under acquisition		Remarks
						In Acres	In Hectares	
<b>A</b>	1	Nawadih	4	Khalari	Ranchi	798.74	323.24	Part
	2	Tumang	5	Khalari	Ranchi	1108.71	448.68	Part
	3	Karkatta	6	Khalari	Ranchi	166.61	67.42	Part
	4	Mayapur	7	Khalari	Ranchi	38.79	15.70	Part
	5	Hesalong	2	Khalari	Ranchi	01.07	0.43	Part
	<b>TOTAL AREA OF BLOCK - A</b>					2113.92	855.47	
<b>B</b>	1	Hesalong	2	Khalari	Ranchi	16.17	6.54	Part
	2	Nawadih	4	Khalari	Ranchi	3.09	1.25	Part
	<b>TOTAL AREA OF BLOCK - B</b>					19.26	7.79	
<b>C</b>	1	Nawadih	4	Khalari	Ranchi	0.07	0.03	Part
	<b>TOTAL AREA OF BLOCK - C</b>					0.07	0.03	
		<b>TOTAL AREA UNDER ACQUISITION (A+B+C)</b>				2133.25 Acres (Approx.)	863.29 Hectares (approx.)	

Details of plots to be acquired for Rohini Karkatta 10 MTY OCP:

Block A:

- Village Nawadih: Plot numbers- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(P), 17(P), 18(P), 19, 20, 21, 22, 23(P), 24, 25, 26, 27(P), 28(P), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90(P), 91(P), 92, 93, 94, 116(P), 117(P), 118(P), 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139(P), 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157(P), 158(P), 159(P), 160(P), 207(P), 223(P), 224(P), 225(P), 226(P), 231(P), 232(P), 236(P), 326(P), 327(P), 328, 329, 355(P), 374(P), 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384(P), 385(P), 386(P), 387(P), 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400(P), 401(P), 420(P), 422(P), 423, 424, 425, 426(P), 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472(P), 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500(P), 501(P), 502(P), 541(P), 542, 543, 544, 545(P), 546(P), 547(P), 548(P), 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561(P), 563(P), 602(P), 603, 612(P), 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622(P), 623(P), 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642(P), 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655,

- 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682(P), 684(P), 690(P), 691(P), 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731(P), 732(P), 733(P), 734, 735, 736, 737, 738(P), 739(P), 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858(P), 859, 860, 861, 862, 863(P), 864, 865, 866, 867, 116/883, 116/884(P), 116/885(P), 497/875, 541/873, 541/874, 9/877, 9/878(P), 9/881 & 91/886.
2. Village Tumang: Plot numbers- 17(P), 34(P), 35(P), 48(P), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261(P), 262, 263(P), 404(P), 409(P), 410, 411(P), 412(P), 413, , 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466(P), 467(P), 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, , 498, 499, 500, 501(P), 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 123/564, 123/565, 180/549, 224/550, 34/558(P), 35/560, 454/551, 463/566, 464/570, 467/553(P), 48/561(P), 48/563, 525/567, 525/568 and 525/569 .
3. Village Karkatta: Plot numbers- 1(P), 141(P), 143(P), 153(P), 154, 155, 156, 157(P), 189(P), 190(P), 191, 192(P), 193(P), 194(P), 195(P), 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204(P), 248(P), 249(P), 250(P), 251(P), 257(P), 258(P), 259(P), 323(P), 325(P), 326(P), 327(P) & 328(P).
4. Village Mayapur: Plot numbers- 627(P), 628(P), 634(P), 696(P), 697(P), 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 709, 710, 712, 713, 714(P), 723(P), 724(P), 725(P), 727(P), 728(P), 729(P), 730(P) and 732(P).
5. Village Hesalaung: Plot numbers- 427(P) and 550(P).

## Block B:

1. Village Hesalaung: Plot numbers- 545(P), 546(P), 547, 548(P), 549(P), 550(P), 553 (P) and 554(P).
2. Village Nawadih: Plot numbers- 200(P), 201(P), 202(P), 204 and 205.

## Block C:

1. Village Nawadih: Plot numbers – 207(P).

Boundary Description:

Block	Boundary Line	Boundary Description
A	A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A23-A24-A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31-A32-A33-A34-A35-A36-A37-A38-A39-A40-A41-A42-A43-A44-A45-A46-A47-A48-A49-A50-A51-A52-A53-A54-A55-A56-A57-A58-A59-A60-A61-A62-A63-A64-A65-A66-A67-A68-A69-A70-A71-A72-A73-A74-A75-A76-A77-A78-A79-A80-A81-A82-A83-A84-A85-A86-A87-A88-A89-A90-A91-A92-A93-A94-A95-A96-97-A98-A99-A100-A101-A102-A103-A1	Line starts from point 'A1' and passes through points A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, AS2, A53, A54, A55 & A56,A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, 97, A98, A99, A100, A101, A102, A103 and meets at starting point 'A1'
B	A67-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-A67	Line starts from point 'A67' and passes through points B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 & B12 and meets at starting point 'A67'
C	B11-C1-C2-B11	Line starts from point 'B11' and passes through points C1 & C2 and meets at starting point 'B11'

[F. No. 43015/10/2022-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.